

12. Discuss and differentiate the domestic and export procedures in central excise. Give examples. **12**

केन्द्रीय उत्पाद की घरेलू तथा निर्यात प्रक्रियाओं में अन्तर बताइए तथा वर्णन कीजिए । उदाहरण भी दीजिए ।

Or (अथवा)

Write short notes on the following :

- (a) Excise Tax exemptions for small scale industries
- (b) Excise tax planning for non-manufacturing industries.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (अ) लघु उद्योग पैमाने के लिए उत्पाद कर छूट
- (ब) गैर-विनिर्माणकारी उद्योगों के लिए उत्पाद कर नियोजन ।

13. Discuss and detailed out the brief history of excise law in India. Is Central Excise Act, 1944 is an addition to existing laws in the field ? **11**

भारत में उत्पाद नियम के संक्षिप्त इतिहास का विस्तृत वर्णन कीजिए । क्या केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 क्षेत्र में मौजूदा कानूनों के अतिरिक्त है ?

J-0643(TR)

4

Roll No.

Exam Code : J-19

Subject Code—0643

P.G.D.T. EXAMINATION

(Batch 2009 to 2016)

CENTRAL EXCISE TAX

PGDT-103

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 70

Section A

खण्ड 'अ'

Note : Explain and exemplify only *seven* of the following questions in not more than **90-100** words each. **5 each**

निम्नलिखित में से किन्हीं सात प्रश्नों के उत्तर उदाहरण देते हुए **90-100** शब्दों में दीजिए ।

1. Penalties and recovery provisions in Central Excise Tax.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में दण्ड तथा रिकवरी के प्रावधान।

(3-97-5-0119) J-0643(TR)

P.T.O.

2. Provisions regarding Excisable Goods.
उत्पाद शुल्क योग्य माल के संबंध में प्रावधान ।
3. Rules regarding Retention of Goods.
माल के प्रतिधारण के संबंध में नियम ।
4. The assessment process under Central Excise Tax.
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत मूल्यांकन प्रक्रिया ।
5. The brief history of VAT.
VAT का संक्षिप्त इतिहास ।
6. The provisions of Appeal and Revision.
अपील और रिवीजन के प्रावधान ।
7. Briefing the Nature of Excise Tax Planning.
उत्पाद शुल्क नियोजन की प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन ।
8. Classification of Manufacturing Goods.
विनिर्माण वस्तुओं का वर्गीकरण ।

9. Excise tax and Small Scale Industries.
उत्पाद शुल्क तथा लघु पैमाने पर उद्योग ।
10. Export procedure under Central Excise Tax.
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत निर्यात प्रक्रिया ।

Section B

खण्ड 'ब'

Note : Attempt all questions.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

11. "Valuation under central excise do not differ in specific cases." Explain. **12**
"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत छूट विशिष्ट मामलों में भिन्न नहीं होती है ।" व्याख्या कीजिए ।

Or (अथवा)

Explain and exemplify in detail the provisions relating to the retention and return of goods under excise tax law in India.

भारत में उत्पाद कर के तहत प्रतिधारण तथा माल वापसी के संबंध में प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए तथा उदाहरण दीजिए ।

Or (अथवा)

“Processing and manufacturing of goods determine the rate of excise duty.” Elucidate.

“माल का प्रसंस्करण और विनिर्माण उत्पाद शुल्क की दर निर्धारित करता है ।” वर्णन कीजिए ।

Or (अथवा)

“Processing and manufacturing of goods determine the rate of excise duty.” Elucidate.

“माल का प्रसंस्करण और विनिर्माण उत्पाद शुल्क की दर निर्धारित करता है ।” वर्णन कीजिए ।